

गुरुकुल नीलोखेड़ी, करनाल (हरियाणा)

बच्चे को गुरुकुल में छोड़ने से पूर्व अभिभावकों के लिए अति आवश्यक दिशा-निर्देश

प्रिय अभिभावकगण ।

जैसा की आप जानते हैं की सत्र 2021-22 के लिए गुरुकुल में अपने छात्र का सफलतापूर्वक प्रवेश करवा लिया है । आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है । कृपया ध्यान रखें ।

1. कक्षा V से IX तक के नए छात्रों के लिए रिपोर्टिंग 4 अप्रैल 2021 को सुबह 9 बजे से 2 बजे तक है ।
2. विद्यार्थी को गुरुकुल में छोड़ने के लिए केवल एक ही व्यक्ति आए ।
3. गुरुकुल परिसर में एक निर्धारित सीमा से आगे अभिभावक नहीं जा सकेंगे ।
4. गुरुकुल में आने से पूर्व छात्र कोरोना से संबंधित RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट साथ लेकर आए। रिपोर्ट 24 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही छात्र गुरुकुल में आए ।
5. विद्यार्थी के साथ भेजी जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की सूची गुरुकुल की वेबसाइट <https://www.gurukulnilokheri.com/> पर डाल दी गई है। कृपया यह सामान विद्यार्थी के साथ अवश्य भेजें। इस सूची में दिए गए सामान के अतिरिक्त अन्य सामान को विद्यार्थी के साथ हॉस्टल में नहीं जाने दिया जाएगा ।
6. गुरुकुल में आने के बाद ग्रीष्मावकाश से पूर्व किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाएगा । विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन ,गृहप्रवेश, धार्मिक आयोजन आदि-आदि के लिए किसी भी स्थिति में अवकाश स्वीकार्य नहीं होगा । अभिभावक छात्रों के हित में इस नियम का अनुपालन सुनिश्चित करें ।
7. निश्चित PTM तक (Pre-informed) के अतिरिक्त गुरुकुल परिसर में अभिभावकों का प्रवेश निषिद्ध होगा । अभिभावक बीच में छात्रों से मिलने के लिए न तो प्रयास करें, न सिफारिश करें, न ही दबाव बनाएं।
8. बच्चे को गुरुकुल के वातावरण में ढालने को ध्यान में रखते हुए पहले 20 दिन अभिभावकों का छात्रों से टेलिफोन द्वारा कोई संपर्क नहीं करवाया जाएगा। तदुपरांत अभिभावकों से छात्रों की साप्ताहिक बातचीत निर्धारित व्यवस्थानुसार करवाई जाती रहेगी। आवश्यक होने पर हर सूचना अभिभावक को दे दी जाएगी। यदि गुरुकुल से कोई फोन नहीं आता तो आप यह समझें कि सब कुछ सामान्य है ।

9. गुरुकुल प्रबंधन द्वारा छात्र के स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यवहार आदि की जानकारी समयसमय पर - अभिभावकों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से दी जाती रहेगी। कृपया गुरुकुलके फेसबुक पेज - <https://www.facebook.com/thegurukulnilokheri>
यू-ट्यूब चैनल -<https://www.youtube.com/channel/UCIiHKhG8EDZRPBZO3wTxcZg>
इंस्टाग्राम पेज - <https://www.instagram.com/the.gurukulnilokheri/?hl=en>
के साथ अपना संपर्क निरंतर बनाए रखें।
10. गुरुकुल में बच्चा छोड़ने से पूर्व अभिभावक को अपने द्वारा हस्ताक्षर किया गया एक सहमति पत्र गुरुकुल में जमा करवाना अनिवार्य है। यह पत्र हमारी वेबसाइट <https://www.gurukulnilokheri.com/> से डाउनलोड किया जा सकता है। जो बच्चे अपने अभिभावक के साथ नहीं आ रहे हैं वह घर से चलने से पहले इस सहमति पत्र पर अपने मातापिता के हस्ताक्षर अवश्य करवा लें।
11. अभिभावकों से निवेदन है कि जिस बच्चे को अस्थमा, शुगर, या टी0बी0 के लक्षण हों या पहले ये बीमारियाँ रहीं हो, ऐसे बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे गुरुकुल में न भेजें।
12. **कृपया फीस विवरण को ध्यान से पढ़ें :**
(क) इस बार गुरुकुल में फीस लेने के लिए काउंटर नहीं होगा। बच्चे को गुरुकुल में छोड़ने आने से पूर्व 2021 Quarterst 1 तक की फीस ऑनलाइन अवश्य जमा करवा दें।
(ख) अभिभावकों को पहली तिमाही की ₹ 45, प्रतिमाह के हिसाब से फीस जमा करवानी है -/500।
(ग) ऑनलाइन फीस भुगतान किए बिना किसी भी छात्र को हॉस्टल में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।
(घ) फीस के लिए चैक स्वीकार नहीं किया जाएगा।
(ङ) फीस के अतिरिक्त जेब खर्च के लिए बच्चे के खाते में कम से कम ₹ 10,000-/- अवश्य जमा करवाने होंगे। फीस से सम्बन्धित इन नियमों में छूट के लिए कृपया किसी प्रकार का आग्रह करके शर्मिंदा न करें।
13. दिए गए कार्यक्रम में आपात परिस्थिति में परिवर्तन का अधिकार गुरुकुल प्रबन्धन के पास सुरक्षित है।